		Regd. C Tel: +91 22	Office: 27, S 6140 0909	DF I, Seepz Fax: +91 2	z, A 2 2	LOGIES LIMITED Indheri (East), Mumbai - 400096 1829 1418 Website: www.trigyn.com L72200MH1986PLC039341				
	EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE I FOR THE QUARTER ENDED JUNE	FINANCIAL	RESULTS		Γ	EXTRACT OF STATEMENT OF CONSO FOR THE QUARTER END				
		Quarter	•	Rupees in lakhs) Year ended	\vdash			Quarter	· · · ·	Rupees in lakhs Year ended
		30 June	30 June	31 March				30 June	30 June	31 March
Sr. No.	Particulars	2024 Unaudited	2023 Unaudited	2024 Audited	Sr. No.	Particulars		2024 Unaudited	2023 Unaudited	2024 Audited
1	Total income from Operations	3,667.47	3,126.82	17,526.55	1	Total income from Operations		24,293.26	32,250.08	127,966.23
2	Net Profit / (Loss) for the period	1200 70		244.50	2	Net Profit / (Loss) for the period				
	(before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	(363.78)	(727.45)	911.56		(before Tax, Exceptional and Extraordinary items)		1,186.24	1,882.54	3,821.00
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	(270.00)		207.44	3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax			1000 54	2 001 0
.	(after Exceptional and Extraordinary items)	(370.30)	(728.51)	907.14		(after Exceptional and Extraordinary items)		1,186.24	1,882.54	3,821.0
۰ļ	Net Profit / (Loss) for the period after Tax	(071.45)	(707.00)	051.00	4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax		701.00	1 000 00	1 000 0
. !	(after Exceptional and Extraordinary items)	(371.45)	(707.92)	651.06	_ ا	(after Exceptional and Extraordinary items)	(1))	761.38	1,208.99	1,996.3
'	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit / (Loss)	(262.0E)	(700.05)	(90.40)	5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit,	. ,	760 50	1 100 01	0.001.7
	for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(363.05)	(700.25)	(82.40)	_	for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after	er tax) j	762.52	1,162.61	2,021.7
4	Equity Share Capital	3,078.57	3,078.57	3,078.57	6	Equity Share Capital		3,078.57	3,078.57	3,078.5
<u> </u>	Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of	!		15 750 40	<u> '</u>	Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet	TOT			67 040 7
,	previous accounting year (i) Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)	1 1		15,758.49	8	previous accounting year (i) Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				67,042.7
1	(i) Earnings Per Snare (of Ks. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	1 !			ľ	(I) Earnings Per Share (of Ks. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)				
	(for continuing and discontinued operations) (a) Basic :	(1.21)	(2.30)	2.11		(for continuing and discontinued operations) (a) Basic :		2.47	3.93	6.4
	(a) Basic : (b) Diluted :	(1.21) (1.21)	(2.30)	2.11		(a) Basic : (b) Diluted :		2.47	3.93	6.4 6.4
Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly & year ended financial results are available on the websites of the Stock Exchange(s) viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and the listed entity www.trigyn.com 2 Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules. 2 Notes to Standalone Financial statement for the quarter ended 30th June 2024 has been reviewed by the Audit Committee on August 13, 2024 and approved by the Board of Directors on August 14, 2024. The financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS), the provisions of the Companies Act, 2013, and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India.										
2 3 4	In terms of IND AS 108, the company is having a single reportable segment i The company has provided for gratuity and leave encashment expenses on p Investments, Receivables and Loans and advances include balances in the a as under :	i.e. "Communicat proportionate as p	tion and informa	ition technology uation report for	staf the	fing support services". year ended 31st March 2024.			(Rupee	es in lacs)
\vdash	Particulars						30ti	h June 2024	31st Ma	rch 2024
	Investments Ecapital Solutions (Bermuda) Ltd*							50,972.96	F	50,972.96
	Debtors							00,872.80		0,912.30
	Trigyn Technologies Limited, UK*							60.09		60.09
	Loans and Advances									
	Trigyn Technologies Limited, UK*							20.76		20.76
	eVector Inc USA*							0.27		0.27
	eCapital Solutions (Mauritius) Limited*							2.09		2.09
	eVector India Private Limited*							0.10		0.10
 *The company has carried forward in the book of accounts the balance of the above-mentioned overseas subsidiaries which has been wound up. The company is awaiting approval from the Reserve Bank of India for writing off these balances. The process for obtaining necessary approval and permissions from the Reserve Bank of India (RBI) under FEMA regulations is in progress. In view of this, Investments, Loans & advances, and provision for doubtful debts and impairment in the value of investments are retained and other entries are given effect in the books of account which are subject to the approval of RBI. This matter is being carried forward for more than 8 years. Major Contracts of the company A) Implementation and Management of Cloud-Based Virtual Classroom System in Identified Schools in Andhra Pradesh The total contract value of the Andhra Pradesh State Fibernet Limited (APSFL) project amounts to Rs. 160 Crores inclusive of GST. This comprises Rs. 80 crores for the supply of materials and installation of video conferencing equipment and the balance Rs. 80 crores towards operations and maintenance. The company has completed a major portion of the supply contract. Balance work at 59 schools, 1 District Studio and Central Studio is still pending for completion due to non-allotment of sites from APSFL. The Company has recognized revenue of Rs. 79.90 crores in respect of the supply contract which includes unbilled revenue of Rs. 49.73 lacs up to 30th June 2024. This is in line with IND AS 115 – (Revenue from contracts with customers) accounting for contracts when evenue obligation. Against the milestone billings done of Rs. 79.40 crores, Rs. 17.90 crores have been received and balance of Rs. 61.50 crores is outstanding for more than 4 years. The Company is also holding an inventory 										
	of Rs. 2.17 crores as on 30th June 2024. The operation and maintenance part of uncertainty of collection. Keeping in view the old outstanding of Rs. 61.50 crores being carried forward a			-					-	

Keeping in view the old outstanding of Rs. 61.50 crores being carried forward and poor collection till date, the management is of the view that their decision for not accounting unbilled revenue for AMC charges is justified and proper due to uncertainty of collection. In support of the management's stand, the company has obtained an opinion from a subject matter expert as of 31st March 2022. The management has not classified the outstanding balance as doubtful of recovery and no provision has been made towards old outstandings. However, as per the Company's policy, the company has made an Expected Credit Loss (ECL) provision of Rs. 2.38 crores in Quarter 1 of the financial year 2024-25. The cumulative ECL provision made is Rs. 43.17 crores for the above outstanding. **B) Design, Development, Implementation, Operation, and Maintenance of Smart Parking Solution at Nashik**

Due to various reasons, there was no collection of tolls from the 15 commissioned parking sites in Nashik. Due to the dispute between TTL and Nashik Municipal Smart City Development Corporation Ltd (NMSCDCL) a termination notice was sent to TTL on Monday, September 4, 2023. However, Trigyn has made sufficient provision for the claim raised by NMSCDCL. Also, Trigyn has disputed the termination and filed for a Commercial Arbitration at Commercial Division Nashik for seeking appropriate reliefs under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 after Notice of Termination Letter was revived from the NMSCDCL. NMSCDCL has appointed Mr. Jayant T. Nashikar, former Secretary, PWD Govt of Maharashtra. Trigyn will appoint one Arbitrator ASAP and thereafter both the Arbitrators will appoint one more Arbitrator. Total three Arbitrators will be appointed. Pursis on behalf of NMSCDCL has being filed stating that until filing of written statement the BG will not be invoked. NMSCDCL has submitted their written statement in the court and Trigyn has replied. Refer to Note no. 6(g) of pending legal matter. During the quarter, the company has charged in the statement of Profit & Loss, the total expenditure of Rs. 38.53 lakhs. The company has also amortized an amount of Rs. 27.90 lakhs in respect of the capitalized portion of completed sites. The unamortized Capital Cost carried forward in the Balance Sheet as at June 30, 2024 of Rs. 6.32 Crores.

6 Pending legal suits

a) Legal case filed by the company against Millennium Synergy Pvt. Ltd. and Iram Technologies Pvt. Ltd.

The company has filed a special civil suit for the recovery of the damages from the above-mentioned parties. The next hearing is on 23rd September 2024

b) Case filed by Iram Technologies Pvt. Ltd. against the company

Cheque bouncing case has been filed by Iram Technologies Pvt. Ltd. against the company in Small Causes Court, Bengaluru under Section 138 of the Negotiable Instruments Act. In lieu of the above cheque, the company had cleared the liability and had requested the complainant to return the postdated cheques. However, the complainant has proceeded in filing the case against the company under Section 138 of the Negotiable Instruments Act. The company's lawyer presented arguments and filed written statements on behalf of the company. On 9th December 2021 relying on the purchase order, the Small Causes Court, Bengaluru had asked the company to deposit 20% of the purchase order value within 60 days. The company filed an appeal with Honorable High Court of Karnataka against the above order and obtained an interim stay on the order passed by the Small Causes Court, Bengaluru. On 11th July, 2023, the Counsel of accused filed a memo. On 9th November 2023 accused was absent, EP filed. Counsel for the accused filed memo produced the internet copy of stay order from the High court website matter is stayed. The matter was stayed and is posted for hearing on 7th February, 2023. On February 7, 2024, the accused was absent from the court proceedings. A memorandum was filed on this date, and awaiting further orders from the court. The next scheduled date for the hearing has been set for 12th September, 2024.

c) Toshniwal Enterprises Control Limited (TECL)

The company and TECL entered into an MOU on 24-April-2019 to work on the ONGC project. Insolvency proceeding against TECL was admitted on 22-11-2019 at NCLT – Kolkata. ONGC terminated the contract on 29-11-2019. The Company's advocate had filed an application with NCLT in Sentember 2020. There were certain detects raised by the Begistry department while scrutinizing the file. The same was duly corrected by the company's advocate and the matter was beard by the NCLT Kolkata bench on April 8.

THE ASKA COOPERATIVE SUGAR INDUSTRIES LTD.

P.O. Nuagam (Aska) - 761111, Ganjam District, Odisha email:askasugar@yahoo.co.in, GSTIN : 21AAAAT5989L1Z0

CANCELLATION OF ADVERTISEMENT FOR THE POST OF CHIEF ENGINEER

Letter No.GAD/F-200/968Dt.14.08.2024Applications were invited from eligible candidates for
filling of the post of Chief Engineer on Contractual
basis vide this office letter No.GAD/F-200(P)/679,
Dtd.01.08.2022 stands cancelled.
Managing Director



GHAR BANEGA, TOH DESH BANEGA Registered Address: 2nd Floor, No. 3, JVT Towers, 8th A Main Road, Sampangi Rama Nagar Hudson Circle, Bengaluru, Karnataka, India- 560027. CIN : L66010KA1990PLC011409

INFORMATION REGARDING THE 34TH (THIRTY FORTH) ANNUAL GENERAL MEETING OF AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED

. The 34th (Thirty Forth) Annual General Meeting ("AGM/ Meeting") of the Members of Aadhar Housing Finance Limited ("the Company / your Company") will be held on **Saturday**, **14th September**, **2024** at **3:00** p.m. (Indian Standard Time) through Video Conferencing ("VC") or other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circulars dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and 25th September, 2023 and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable circulars issued by SEBI (collectively referred to as "relevant Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice calling the AGM. Members participating through the VC / OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Dispatch of Annual Report: In compliance with the relevant Circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2023-24, will be sent to all the Members of the Company whose email address(es) are registered with the Company/ Depository Participants. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at, https://aadharhousing.com/disclosures-under-regulation-62-of-the-sebi-lodr-regulation-2015-pdf/annual-report on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, M/s KFin Technologies Limited ("KFinTech") at https://evoting.kfintech.com. The Company will also provide physical copies of the AGM Notice and the Annual Report to the Shareholders upon request.

I. Manner of registering / updating email address(es): a) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email address(es) with the Company, are requested to register/ update their email address and other KYC details, by sending request at einward.ris@kfintech.com along with Form ISR-1 and other relevant forms and documents. The format of Form ISR-1 is available on the website of KFinTech at https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx. b) Members holding shares in dematerialised mode who have not register/update their email address(es) with their Depository Participant(s) are requested to register/update their email address(es) with the Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts.

4. Manner of casting vote(s) through e-Voting: Members can cast their vote(s) on the businesses as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely ("remote e-Voting") by Members holding shares in dematerialised mode, physical mode and for Members who have not registered their email address(es) shall be provided in the Notice of the AGM which will be available as mentioned aforesaid. The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("Insta Poll") and Members attending the AGM who have not cast their vote by remote e-Voting will be able to vote at the AGM through Insta Poll.
5. Joining the AGM through VC/OAVM: Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at https://emeetings.klintech.com. The login credentials for casting votes through remote e-Voting and Insta Poll shall be made available to the Members through remote e-Voting and Insta Poll shall be made available to the Members through remote e-Voting and Insta Poll shall be made available to the Members through remote e-Voting and Insta Poll shall be made available to the Members through remote e-Voting and Insta Poll shall be made available to the Members through remote by company/KFinTech/Depository Participants, may generate login credentials by following the instructions given in the Notes to the Notice of AGM.

6. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-Voting or through Insta Poll during the AGM.

For AADHAR HOUSING FINANCE LIMITED

Su/-Harshada Pathak Company Secretary and Compliance Officer

Date : 13th August 2024 Company Control of ACS: 19534

INSILCO LIMITED

Under Voluntary Liquidation wef 25.06.2021) CIN: L34102UP1988PLC010141

Regd. Office - B-23, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh-201301

Phone: 09837923893. Email id: insilco2@gmail.com. Website: www.insilcoindia.com

NOTICE FOR 36[™] ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

Notice is hereby given that:

Place: Mumbai

The 36th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be convened on Wednesday, 11th September 2024 at 02:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in pursuant to the General Circular Nos.14/2020 dated 8th April 2020, 17/2020 dated 13th April 2020 and other subsequent circulars issued in this regard, the latest being General Circular No. 09/2023 dated 25th September 2023, issued by the Ministry of Corporate Affair ("MCA Circulars") has permitted the holding of the AGM through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the shareholders at a common venue ptember 20 e Securities and Exchange Board of India ('SEBI') pursuant to it Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1 /CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 (the validity of which had been extended till December 31, 2021 by SEBI, vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CRD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and latest circular Gated may 15, 2022, SEDIFIODORIDO 27 FOR 2020 4 Gated Sandary 0, 2022 and ratest circular no. SEBIHOCED/CED/CED-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated Cotober 07, 2023 ("SEBI Circulars") has provided certain relaxations from compliance with certain provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). In accordance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 ("Act"). Listing Regulation read with circulars issued by MCA and SEE (he 36" AGM of the Company shall be control which are a strain require physical vision of the Company shall be control with the company shall be control which cells the set of the company shall be control with the company shall be contr presence of members at a common venue. The deemed venue for the 36th AGM shall be the Registered Office of the Company.

2021. The Bench condoned the delay in submitting the claim by the company. Further, it allowed the application of the company and directed the resolution professional to verify and accept the claim on its merit. NCLT has ordered the company report and liquidator submitting the train with proof. The matter was last heard on 27.06.2022 and Counsel appearing for Liquidator submitted the preliminary report and list of stakeholders. The matter is now listed for reporting progress on 23.11.2022. There has been no development in the case.

d) Suit filed against ESDS Software Solution Pvt. Ltd. by the Company

The company had filed a suit in the Bombay High Court on August 2, 2019, appealing that the above party is restrained from terminating the consortium agreement and honor their commitments under the master service agreement. The court has appointed an arbitrator in the above matter. The final award was given by the Arbitrator on 24-02-2024. ESDS was instructed to refund Rs. 75 Lacs to Trigyn after deducting the litigation cost of Rs. 12,78,900. Trigyn has filed its petition challenging Arbitration award in the High Court on May 7, 2024. Trigyn is in the process of clearing the observations raised by the court in our petition, thereafter the hearing will start.

e) ISYX Technologies India Private Limited.

Trigyn had received a notice from District Legal Service Authority, Krishna at Machilipatnam under Commercial Courts Act 2015 for mediation on claim for Rs. 5.09 Crores Principal and Rs. 2.42 Crores as interest calculated till 28-10-2022. We had requested for four weeks' time, thereafter we have not received any communication from the authority.

f) Dispute for non-payment of amount for services provided by ESDS Software

The commercial dispute was submitted against Trigyn in Nashik, District Legal Service Authority for pre-institution mediation. Thereafter a commercial suit was filed against Trigyn in Civil Court Senior Division Nashik on 05-08-2023. First date of hearing was on 11th August 2023. The matter has been disposed on 2nd August 2024. The Hon'ble court has directed to re-register the suit as Summary Suit. Both the parties shall remain present after re-registration of the said suit.

g) Arbitration filed seeking relief on notice of termination by Nashik Municipal Smart City Development Corporation Ltd (NMSCDCL)

Due to the dispute between Trigyn and NMSCDCL a termination notice was sent to TTL on Monday, September 4, 2023. Trigyn has disputed the termination and filed for a Commercial Arbitration at Commercial Division Nashik for seeking appropriate reliefs under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 after Notice of Termination Letter was revived from the NMSCDCL. Pursis on behalf of NMSCDCL has being filed stating that until filing of written statement the BG will not be invoke. NMSCDCL has appointed Mr. Jayant T. Nashikar, former Secretary, PWD Govt of Maharashtra. Trigyn will appoint one Arbitrator ASAP and thereafter both the Arbitrators will appoint one more Arbitrator. Total Three Arbitrators will be appointed.NMSCDCL has submitted their written statement in the court and Trigyn has to reply on the same by 13-02-2024.

The court instructed that the dispute be resolved through mediation, with a physical meeting held on March 5, 2024, and an online meeting on March 12, 2024. The matter was further discussed on March 20, 2024, when Trigyn presented its mediation proposal. However, NMSCDCL neither accepted Trigyn's proposal nor provided a written counter-proposal, leading to a failed mediation. The court addressed the matter on May 10, 2024, but since it was the court's last working day, the hearing was rescheduled for June 14, 2024. The matter was heard on July 1, 2024 and July 5, 2024. Trigyn pleaded to the Hon'ble court to instruct the Smart City to appoint Arbitrator to represent them for the matter. Also, Trigyn has moved the Hon'ble High Court of Bombay and prayed for appointment of Arbitrator to resolve the dispute. The petition is being admitted. The next date for hearing in the Nashik District Court is August 28, 2024.

The management has evaluated all the pending legal cases in consultation with their legal counsel and they believe that they have got a good case and expect a favorable outcome in the majority of the above cases.

- Other expenses of the Company includes ECL provision Rs. 2.69 crores for the current year. The cumulative ECL provision made is Rs. 45.63 crores.
- The company has received a show cause cum demand notice from GST department for the F.Y. 2019-20 to FY 2022-23 of Rs. 9.08 crores disallowing the Input Tax Credit claimed by the company being unit in SEZ during that period. Department has taken a view that SEZ units are not eligible to claim any ITC. The company has responded with justification. The matter is pending before the Joint Commissioner, Mumbai. The Company believes that Department claim is not just assumptive in nature but also clearly contrary to the scheme of GST being a value added tax and also to the scheme of SEZ Act 2005 to not burden the SEZ units with taxation.
- The exceptional item for the quarter & year to date ended represents provision for the loan given to the subsidiary.
- 10 A search u/s 132 of the Income Tax Act was conducted by the Income Tax department on 29th August 2018. Thereafter the notices were issued for the block assessment for the period 2014-15 to 2019-20 (7 assessment years). The company has received the assessment orders for said Block raising a fresh demand of Rs.3.14 crores. The main reason for the demand is on account of adjustments to the returned income made at the processing stage and in one case dividend distribution tax credit has not been considered by the department which has resulted in wrongful addition. There being mistakes apparent from records, the company filed appeals/rectifications wherever applicable in consultation with the company's tax advisors.
- 11 Earnings per share for the interim periods are not annualised.
- 12 The balance of associate companies of United Telecoms Limited (UTL) in the books of Trigyn Technologies Limited as of 30th June 2024 is as follows:

	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)
IΓ	Receivable from Promuk Hoffman International Pvt. Ltd.	70.00
	Rental Advance to United Telecoms Limited	68.21
	Security Deposit to United Telecoms Limited for premises rented	34.55
	Security Deposit to Aktivolt Celtek Pvt Ltd. for premises rented	29.50
	Receivable from United Telecoms Limited given as an advance for bidding for new project and providing expertise	500.00
	Receivable from Priyaraja Electronics Limited given as an advance for bidding for new project and providing expertise	200.00

* Excluding provisions made for Interest receivable from United Telecoms Limited Rs. 45 lakhs and Priyaraja Electronics Limited Rs. 18 lakhs

13 Figures of the previous quarter/period/year have been regrouped and reclassified, wherever considered necessary to correspond with the current period presentation.

Notes to Consolidated Financials Results

The unaudited financial statement for the quarter ended June 2024 has been reviewed by the audit committee on 13th August 2024 and approved by the Board of Directors on 14th August 2024. The financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS), the provisions of the Companies Act, 2013, and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India.

2 In terms of IND AS 108, the company is having single reportable segment i.e., "Communication and information technology staffing support services".

- 3 The company has provided for gratuity and leave encashment on proportionate basis as per actuarial valuation report for the year ended 31st March 2024, except in case of overseas subsidiaries where provision is made as per local applicable laws.
- 4 The financial statements of subsidiaries Leading Edge Infotech Limited (LEIL) and Trigyn Technologies India Private Limited (TTIPL) have been prepared on going concern basis despite the negative net worth of the Company as at the year end. As of 30th June 2024, both the above companies are not able to meet their commitments on their own and are totally dependent on the financial support of the Holding company. The management is in the process of taking steps to revive the business and is also exploring other alternates such as merger/amalgamation/liquidation. Since both the companies are supported by the holding company, the financial statements have been prepared on going concern basis despite the negative net worth of these Companies at the quarter-end.
- 5 The quarterly results of eight subsidiaries namely Trigyn Technologies Inc, USA, Trigyn Technologies Schweiz GmbH, Switzerland, Trigyn Technologies (India) Private Limited, Leading Edge Infotech Limited, Trigyn EduExpert Pvt Ltd, Trigyn e-Governance Pvt Ltd, Trigyn Fin-Tech Pvt Ltd and Trigyn Healthcare Pvt Ltd are management certified.
- 6 Figures of the previous quarter have been regrouped and reclassified, wherever considered necessary to correspond with the current period presentation.

Place : Amsterdam							
Date : August 14, 2024							

- In The Annual Report of the Company for the Financial Year 2023-24, including the Notice, Board's Report, Auditor's Report, Audited Financial Statements and other required documents for the Financial Year 2023-24, will be sent only by e-mail to those Members of the Company, electronically, whose e-mail address is registered with the Company's Registrar and Share TransFrAgent, with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository") in accordance with the MCA and SEBI Circulars. The Company shall provide facility to its members to cast their votes remotely, using electronic voting system ("remote e-voting"), for participating in the AGM through VC/OVAM facility and e-voting during the AGM through National Securities Depositories Limited ("NSDL"). The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Annual Report, Notice of the AGM and other relevant documents will also be available on the Company's website at www.insilcoindia.com and the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com.
- The manner of voting remotely for members holding shares in dematerialized mode, physical mode and members who have not registered their email address is provided in the Notice of the 36" AGM.
- 4. Those Members holding shares in physical form, whose email addresses are not registered with the Company, may register their email address by sending scan copy of a signed request letter mentioning your name, folio number, complete address, email address to be registered along with scanned self-attested copy of the PAN Card and any document (such as Driving Licence, Passport, Bank Statement, AADHAR) supporting the registered address of the Member, by email to the Company's email address at insilco2@gmail.com. Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participant. If there is any change in the email D already registered with the Company/RTA, Members are requested to immediately notify such change to the Company at Company's email address at insilco2@gmail.com. Members holding shares in demat form can update form and to Depository Participants in respect of shares held in physical form and to Depository Participants.
- 5. The Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. on Wednesday, 4" September 2024 shall be entitled to cast vote by remote e-voting or attend the meeting through VC/OAVM and cast vote at AGM. The remote e-Voting period shall commence on Friday, 06" September 2024 at 09:00 a.m. (IST) and end on Tuesday, 10" September 2024 at 05:00 p.m. (IST). The remote e-Voting module shall be disabled thereafter. Once the vote on a resolution is casted by the member through remote e-voting, it shall not be permitted to change subsequently. The members, who have casted their vote by remote e-voting may also attend AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- 6. Since the physical attendance of the members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Therefore, the facility of appointment of proxy by the members will not be available for the AGM. However, the body corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through electronic voting ("e-voting"). Body corporates whose authorised representatives are intending to attend the meeting through VC/OAVM are requested to send a certified true copy of the Board Resolution through their registered email to the Scrutiniser at officenns@gmail.com with a copy marked to NSDL at evoting@nsdl.co.in authorising their representative to attend and vote on their behalf at the meeting through e-voting.
- M/s. Nityanand Singh & Co., Practicing Company Secretaries, has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- 8. Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves by sending their request from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Company's email address at insilco2@gmail.com at least 48 hours in advance before the start of the AGM.
- 9. Members having any query or seeking any information are requested to write/send email to the Company from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Company's email address at insilco2@gmail.com at least 48 hours in advance before the start of the meeting.

This above information is being issued for the information and benefit of all the Shareholders of the Company in compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.

Place

	For insido Linited
	(Under Voluntary Liquidation wef 25.06.2021)
	Sd/-
14 th August, 2024	Geetika Varshney
: Palwal, Haryana	Company Secretary and Compliance Officer










For TRIGYN TECHNOLOGIES LIMITED Bhavana Rao Executive Director





U. P. STATE SUGAR CORPORATION LTD. VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010	कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)	प्रपत्र सं. आई [कम्पनी (निगमन) नियमावली, 20	14 के नियम 30 के अनुसरण में]	[कम्पनी (निगमन) नियमावर		
VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010 Ph. No. 0522-2307826/28 www.upsugcorp.in Email:upstatesugarcorporation@gmail.com Ref.No.: SS/SSC/Brown Sugar/2023-24/661 Dated : 14.08.2024 SHORT TERM TENDER NOTICE	फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने	केन्द्र २ क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 व नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-	तेत्र के समक्ष, नई दिल्ली की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन)	केन्द्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष, नई दिल्ली कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के विषय में		
FOR SALE OF BROWN SUGAR AND RORI SUGAR E-tenders are invited from bonafide traders having experience in	सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स,	तः भारती (आरएम) होल्यि	ानयमायला, 2014 के नियम 30 के उप-ानयम (5) के क्लाज (5) के विषय म तथा भारती ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड			
ugar trading for sale of Brown Sugar and Rori Sugar stored at	I ZUUZ IN HILI YGA SU XIYA MILIONIKI IN SYYIYI INYON INYALI UGH IHB. 11A GAI SUN 11AI UNAUM I	CIN: U65923DL2007P जिसका पंजीकृत कार्यालय भारत	CIN:U72300DL2	2005PTC14275	57 के विषय में,	
Nohiuddinpur, Pipraich and Munderwa units on 30.08.2024 upto	आर सराज जयारा (गारटर) का 13.05.2024 का सूचना में वर्णन के अनुसार कज खाता न. HHLHDE00233443 की राशि रू. 17,70,415.33 (रूपये सन्नह लाख सत्तर हजार चार सौ पंद्रह और	वसंत कुंज, फेज–।।, नई र्	जिसका पंजीकृत कार्यालय वसंत कुंज, फेज–।।			
:55 PM and shall be opened on 31.08.2024 at 12:00 Noon Tender documents and Terms & Conditions for sale of Brown	तैंतीस पैसे मात्र) और 06.05.2024 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60	 एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है	- एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी		. आवेदक कम्पनी/याचिन नी राज्य रजन्म पंजीकन क	
Sugar and Rori Sugar can be downloaded from e-tender portal	दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जवारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जवार और सर्व सामान्य जनता को	"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरिय 07 अगस्त, 2024 को सम्पन्न इसकी असाध	"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से	″हरियाणा राज्य	I" में स्थानांतरित करने के	
http://etender.up.nic.in or Corporation website www.upsugcorp.in.	सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के	के निबंधनों में कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संश	12 अगस्त, 2024 को सम्पन्न इसकी असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्र के निबंधनों में कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि हेतू कम्पनी अधिनियम, 2			
ender Fee of Rs. 2000/- + 18% GST = Rs. 2360/- and Earnest Money of Rs. 200000/- to be deposited through RTGS only in Sugar Corporation	नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 13.08.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है।	की धारा 13(4) के अधीन एक आवेदन, व प्रस्तावित है।	की धारा 13(4) के अधीन एक आवेदन, केन्द्र सरकॉर के समक्ष प्रस्तुत किया ज प्रस्तावित है।			
account. Tenders without earnest money will not be accepted.	विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए	कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पनी के पं प्रभावित होने की संभावना है. अपनी आ		कोई भी व्यक्ति जिसका हित कम्पन	ी के पंजीकृत क	गर्यालय के प्रस्तावित परि
The undersigned reserves the right to cancel one or all the enders without assigning any reason.	सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 17,70,415.33 (रूपये सत्रह लाख सत्तर हजार चार सौ पंद्रह और तैंतीस पैसे मात्र) 06.05.2024 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ	एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in)) पर सुपुर्द कर सकता है निवेशक परिवाद	प्रभावित होने की संभावना है, अप एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.	gov.in) पर सुपूर	र्द कर सकता है निवेशक
MANAGING DIRECTOR	सतर हजार चार सा पद्रहे आर ततास पस मात्र) UD.UD.2024 के अनुसार आर उस पर ब्याज के साथ सम्मान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	प्रपत्र प्रस्तुत करने द्वारा अथवा अपने हि उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित करते	हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट	प्रपत्र प्रस्तुत करने द्वारा अथवा अ उल्लेखकारी शपथपत्र द्वारा समर्थित	गपने हित के स्व 1 करते हए. क्षेत्रीय	ारूप तथा विरोध के अ य निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,
	के आधीन होगा।	कार्य मंत्रालय को बी—2 विंग, द्वितीय तल तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली—1		कार्य मंत्रालय को बी–2 विंग, द्विती तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल	ोय तल, पं. दीन	ादयाल अंत्योदय भवन
	उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।	चौदह (14) दिन के भीतर सुपुर्द करवा सकत जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को नीचे व	ना है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है,	चौदह (14) दिन के भीतर सुपुर्द करव	वा सकता है अथव	ा पंजीकृत डाके से भेज र
	अचल संपत्ति का विवरण	भेजी जानी चाहिए :	, end	जिसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को भेजी जानी चाहिए :	। नाच वाणते पते प	1र ।स्थत इसक पंजाकृत ⁻
	ज़मीन खसरा नं. 33 केए के सभी भाग और खंड, खाता नं. 1566 (1417 से 1422 फसली) जिसका क्षेत्र 100 स्ववे. यार्डस यानी 83.64 स्ववे.मीटर्स के समतुल्य और निर्मित क्षेत्र 125.46 स्ववे. मीटर्स,	भारती क्रीसेंट 1, नेल्सन मंडेला रोड, वस	J I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	भारती क्रीसेंट 1, नेल्सन मंडेला रो	ोड, वसंत कुंज, '	· · · ·
(Formerly known as Worldwide Leather Exports Limited)	मौजा मेहुवाला माफ़ी में स्थित, परगना पछवादून, जिला देहरादून-248001, उत्तराखंड और जिसकी सीमा	भारती	कृते एवं हिते ो (आरएम) होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड		भारती	कृते ओवरसीज प्राइवेट 1
Reg. Office: 602, Rohit House, 3 Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi-110001 Email Id: legalteam.worldwide@gmail.com, Ph. No. : +91-11-49446667/49446668	निम्नानुसार परिबध्द है:- पूर्व : 15 फीट चौड़ी सडक़ (15 फीट की माप)	हस्ता. /— राकेश भारती मित्तल				ह राजन भारती
CIN: L70109DL1990PLC338798, Website: www.wwal.in	र्पश्चिम : सीता राम की ज़मीन (15 फीट की माप)	तिथिः 14 अगस्त, 2024 स्थानः नई दिल्ली	निदेशक DIN: 00042494	तिथिः 14 अगस्त, 2024 स्थानः नई दिल्ली		DIN: 00
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024	उत्तर ः सोहनलाल की ज़मीन (60 फीट की माप) दक्षिण : अश्वनीकुमार आनंद की ज़मीन (60 फीट की माप)					2.14. 00
(In Lakhs except for EPS) Quarter Quarter Quarter Year	सही/-	Form No. 3	क्शन ऑफ फायनेंशियल एसेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002			
Particulars 30th June 30th June 31st March 31st March	प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: 13.08.2024 सम्मान कैपिटल लिमिटेड	[See Regulation-15 (1)(a)] / 16(3)] DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR First Floor Sudharma II (a) (athis	अनु. कर्जदाता (ओं) का नाम	(अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत गिरवी संपत्ति(यों)	सूचना एन.पी.ए की	बकाया राशि
2024 2023 2024 2024 Unaudited Unaudited Audited Audited	स्थान ः देहरादून (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis Shopping Center, Tonk Road, Jaipur-302015 Case No.: 0A/777/2024	क्र. (ए)	का विवरण (बी)	्म.पा.ए का तारीख (सी)	बकाया साश (रू.) (डी)
otal Income (From operations &		Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule	1. कर्ज खाता क्र. HLAPHDE00501033	(बा) वह सारी संपत्ति जिसमें भूमि (प्लॉट	. ,	(डा) रू. 21,14,119.78/- (रुप
Other Income) 432.99 - 701.76 701.76 Net Profit / (Loss) for the period - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)	5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No.: 12673	1. नेम कुमार 2. बबली	नंबर 100) शामिल है, बेअरिंग खसरा नंबर 692 और 693, मौजा भारूवाला		लाख चौदह हजार एक सौ और अठहत्तर पैसे मात्र)
before Tax, Exceptional and/or extraordinary items) (2.28) (21.30) 38.13 0.53	जब कि,	STATE BANK OF INDIA VS	۲. ччvii	ग्रांट में स्थित, परगना सेंट्रल दून		आर अठहत्तर पस मात्र) 23.07.2024 के अनुसार
Net Profit / (Loss) for the period before	सम्मान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) प्राधिकत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने	M/S SHREE SUNDRAM APPARELS	क ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) :	देहरादून− 248001, उत्तराखंड ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए	 रख पाने में असफल	 । रहे हैं तथा कंपनी दारा अप
ax (after Exceptional/ extraordinary tems) (2.28) (21.30) 38.13 0.53	सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट	(1) M/S SHREE SUNDRAM APPARELS D/W/S/O- SUNEEL NYATI THROUGH ITS PARTNERS, SHREE SUNIL NYATI	बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्र उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि	त्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे र	त्तंभ डी में विनिर्दिष्ट	धनराशि बकाया बनी हुई है
Net Profit / (Loss) for the period after tax	ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जवार चंदन सिंह और गीता फर्त्याल उर्फ गीता	AND SHRI ANIL NYATI HAVING ITS FIRM AT 208, FIRST FLOOR, TRANSPORT NAGAR, BHILWARA, RAJASTHAN-311001	सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंप	त्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप	प में वगीकृत किया ग	रला) के जल्दात का के ाया है । परिणामस्वरूप प्रत्ये
After Exceptional/ extraordinary items) (2.28) (21.30) 37.85 0.25 Fotal Comprehensive Income for the	2002 के साथ पहुंत हुए प्राप्त आवकारों का उपयोग करक कजवार चंदन ।सह आर गाता फत्याल उफ गाता देवी को 15.05.2024 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLHDE00356227 की राशि	Alsoat, A-213, MOTI NAGAR, SANGANERI GATE,	लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंत उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा उ	न्पर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का		
period Comprising Profit / (Loss) for the	रू. 4,72,760.43 (रूपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ साठ और तैंतालीस पैसे मात्र) और	BHILWARA, RAJASTHAN-311001 (2) SHRI SUNEEL NYATI S/O SHRI SUNDAR LAL NYATI	दिन से 60 दिन के भीतर अद्युतन ब्याज, लोगतें, त बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वह	तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट	र संपूर्ण बकाया देयत	ाओं का भुगतान करके कंपन
beriod (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) (2.28) (21.30) 37.85 0.25	15.05.2024 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हए अभियाचना सचना जारी की थी।	HOUSE NO. 06, ANAND BHAWAN, LAXMI NARAYAN MANDIR ROAD, BHILWARA, RAJASTHAN-311001	करने के लिए कंपनी पात्र होगी ।			
Equity Share Capital 328.63 328.63 328.63 328.63	धनराशि चुकता करने में कर्जवारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जवार और सर्व सामान्य जनता को	Also at, C-64, KAMLA CRYSTAL BHILWARA, RAJASTHAN	कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्व			
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per the Audited Balance	सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन	न HOUSE NO. 06, ANAND BHAWAN, LAXMI निर्धारित समयावधि के अंदर सरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने				
Sheet of the previous year 284.90 265.62 287.18 287.18	नियम 8 के तहत सिक्यारटा इटरस्ट (एन्फोसमट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त आधकारा का कार्यान्वयन करके 13.08.2024 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।	NARAYAN MANDIR ROAD, BHILWARA, सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथ			b माध्यम से अन्यथा	नोटिस में उल्लिखित अपनी
Earnings Per Share of Rs. 10/- each (0.07) Basic & Diluted (0.07)	विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए	्राजनाव प्रतबाधत ह			का पूर्व लिखित सह	
otes:	सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 4,72,760.43 (रूपये चार लाख बहत्तर हजार सात सौ साठ और तैंतालीस पैसे मात्र) 15.05.2024 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ सम्मान	WHEREAS, OA/777/2024 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on	>_	(पहले इंडियाबुल्स	हाउसिंग फाइनेंस f	कृते सम्मान कैपिटल लिमिटेड के नाम से जाना र
. The above is an extract of the detailed format Quarter Ended 30.06.2024 Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations	कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के	25.06.2024 WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said Application	स्थान : देहरादून			प्राधिकृत
and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the quarter-ended Financial Results are available on the website of the Stock Exchange, i.e., www.bseindia.com	आधीन होगा। उधारकर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने	under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of Rs. 17041744/- (application along with copies of documents				
and the website of the Company, i.e., www.wwal.in.	के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।	etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as		एलआईसी हाउसिंग		
 The above financial results are in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) as prescribed u/s 133 of the Companies Act, 2013, read with rule 3 of the Companies (Indian Accounting Checker) Pulse. 2014 per prescripted from the single tables. 	अचल संपत्ति का विवरण ज़मीन खसरा नं. 33 केए, खाता नं. 1566 (1417 से 1422 फसली) जिसका क्षेत्र 100 स्क्वे. यार्डस यानी	under :- (i) to show cause within thirty days of the service		ऑफिस : लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग,		
(Indian Accounting Standard) Rules, 2015 as amended from time to time. For Worldwide Aluminium Limited	जमान खसरा न. उउ कंप, खाता न. 1566 (1417 से 1422 फेसला) जिसका क्षेत्र 100 स्वव. थाडस - थाना 83.64- स्ववे.मीटर्स और निर्मित क्षेत्र 125.46 स्ववे. मीटर्स, मौजा मेहुवाला माफ़ी में स्थित, परगना पछवादून,	of summons as to why relief prayed for should not be granted. (ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and	LIC HOUSING FINANCE LTD With you, for your dream home	[(परिशिष्ट-IV कब्जा सूचना (अच		
Sd/- Sd/-	देहरादून-248001, उत्तराखंड और जिसकी सीमा इस प्रकार है:-	assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application. (iii) You are restrained from dealing with or disposing of	जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसम्पत्तियं	ों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और	प्रतिभूति हित (द्वि	तीय) अध्यादेश, 2002 (
Place : New Delhi (Joint Managing Direct) Jate : 14.08.2024 DIN : 02801441	पूर्व : 15 फीट चौड़ी सडक़ (15 फीट की माप) पश्चिम : सीता राम की ज़मीन (15 फीट की माप)	secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and	का अध्यादेश 3) के प्रवर्तन के तहत एलआ (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के सा	ईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का उ	अधिकृत प्राधिकारी	होने के नाते और प्रतिभू
5	उत्तर : सोहनलाल को जमीन (60 फीट की माप)	disposal of the application for attachment of properties. (iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary	(प्रवतन) नियम, 2002 के नियम 9 के सा वर्णित राशि + ब्याज एवं उस पर अन्य प्रभ			
	दक्षिण : अश्वनीकुमार आनंद की ज़मीन) (60 फीट की माप) सन्नी/-	course of his business any of the assets over which security interest is created and / or other assets and properties specified or disclosed	सूचना जारी की। कर्जदार राशि का भगतान करने में असफल	रहे इसलिए एतटाग कर्जनग थोंग थांग	जनता को ग्रनिट f	किया जाता है कि अभोन
	प्राधिकृत अधिकारी	under serial number 3A of the original application without the prior approval of the	ने कथित नियम के नियम 9 के साथ पठित	कथित अधिनियम की धारा 13(4) के	अंतर्गत उसे प्रदत्त	
	दिनांक: 13.08.2024 सम्मान कैपिटल लिमिटेड स्थान : देहरादून (पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)	Tribunal. (v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary	प्रत्येक खाते के सम्मुख तिथि को नीचे वर्णित विशेषकर कर्जदारों और आम जनता को सुर्गि			नेन-देन न करें और रा म
विपुल लिमिटेड CIN No.: L65923DL2002PLC167607		course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security	कोई भी लेन-देन नीचे वर्णित राशि + ब्याज			
/ipul पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 201, सी-50, मालवीय नगर, दिल्ली-110017 कॉरपोरेट कार्यालयः विपुल टेकरस्ववायर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43, गुडगाँव-122009	इनसिल्को लिमिटेड	interest over such assets. You are also directed to file the written	अध्यधीन होगा।			
कारपारेंट कायालय: 19पुल टकस्वयायर, गाल्फ कास राड, संवटर-43, गुडगाव-122009 दूरभाष सं: 0124-4065500, वेबसाइट: www.vipulgroup.in वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ओंडियो-वीडियो साधनों के माध्यम सं आयोजित होने वाली 33वीं	२ गा राज्यया । लगा ग ८७ (दिनांक 25-06-2021 के प्रभाव के तहत स्वैच्छिक परिसमापन) सीआइंपग : L34102UP1988PLC010141	statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on <u>17.12.2024</u> at 10:30 AM failing which the	क्र. आवेदक(कों) तथा सह- सं. आवेदक(कों) के नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	मांग सूचना के कब्जे व अनुसार राशि
वार्षिक साधारण बैठक के संबंध में जानकारी	साआइएन : L34102UP1988PLC010141 पंजी. कार्यालय बी—23, सैक्टर—63, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 फोन: 08837823883, ध्रेस्व आईडी : inslio2@amail.com, केस्साइट : www.insilcoindia.com	application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date 27.06.2024			। 09.08.2024 र	रु. 96,29,296.70 सांकेतिव
तदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, के साथ दित कंएपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) साधारण घरिषत्र नं. 14/2020 दिनांक 18 जोच 2020 जं. में 27/2020 दिनांक 12	36वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम), के लिए नोटिस	Seal Assistant Registrar Debts Recovery Tribunal, Jaipur	^{1.} आवेदक:- श्री मोहम्मद सुल्तान सह-आवेदक : श्रीमती साजिदा	संपत्ति प्लॉट संख्या 47 का 19.12.2023 समस्त भाग, ब्लॉक V पर तथा उस पर ब		
8 अप्रैल, 2020, सं. 17/2020 विनांक 13 अप्रैल, 2020, "कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनीयों द्वारा, ॥धारण एवं विशेष प्रस्तावों को पारित करने पर स्पच्ठिकरण के संबंध में", नं. 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, . 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, नं. 21/2021 विनांक 14 दिसम्बर, 2021, नं. 02/2022 दिनांक	एतड्वारा नोटिस दिया जाता है कि: 1. कम्पनी की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बुधवाए, 11 सितम्बए, 2024 को दोपहर 02:00 बजे (भारतीय		सिद्दीकी	भूतल पर संपत्ति/स्थान संख्या 1 और बेसम	मेंट संख्या 1 (साम	
न. 02/2021 दिनाक 13 जनवरी, 2021, न. 21/2021 दिनाक 14 दिसम्बर, 2021, न. 02/2022 दिनाक 5 मई, 2022, नं. 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 तथा नवीनतम के रूप में 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023, "वीडियो कॉन्फेरिंग, (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजअल साधनों (ओएवीएम) के जरिप वार्षिक साधारण बैठक	समयानुसार) वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') की सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन		ऋण खाता: 310900008175	क्रमशः लगभग 1148 वर्ग फुट और 370 व	गर्ग फुट है, जिसका	कुल सुपर एरिया 1518 वर्ग
المعالم المعالم المعالية	दायित्व और प्रकरीकरण ओक्षणों विचिगमावली 2016 के यह प्रवित्त कार्णपेंट मंत्रालय दाय जारी दिनांक 8		यह आवासीय कॉलोनी इरोस गार्डन कॉलोन	नी. सरज कंड रोड. फरीदाबाद में स्थित है. जि	जसका निर्माण 139 3	35 वर्ग मीटर (166.66 वर्ग ग

ोडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य आँडिये वेजूअल साधनों (ओएवीएम) के जरिए वार्षिक (एजीएम) के आयोजन पर स्पष्टिकरण" के संबंध में, (जिसे सामहिक रूप से एमसीए परिपत्र कहा गया है) के प्रावधान (२०१८) के जावजा ने राजा देखें के राजवाने , (जादा प्रांत्युक्त के राजा राजा राजा के किया के किया की के जावजा के के अनुपालन के तहत वीडियो कॉफ़्रोंसँग (वीसी)(अग्र आंडियो-वियुजल साधनां (ओएवीएम) के जारेए प्रियुल लिमिटेड (कंपनी) की 33वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित की जाएगी, कंपनी एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की मौतिक रूप से उपस्थिति के बगैर वीडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो-विजअल साधनों (ओएवीएम) के जरिए 33वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) बलाने जा रही है। इसवे ज व जाजना विश्वार प्राचिमा (जांत्रवार) के वार्ट्स के वार्वाप्तक प्राचना निकले किंग्रे अलगा, भारतीय प्रतिमृति एवं विनियम बोर्ड (देसेव) ने परिपत्र से सेबी/एववं)/(पाल्ड/सिपास्वी/(मिंआडांड्रार/पी) 2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एववं)/सीएफडी/सीएमडी2(सीआईवार/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सेबी/एववं)/डीडीएचएस/पी/सीआईआर/2022/0063 दिनांक 13 मई, 2022 तथा सेबी/एववं)/सीआरडी/ पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी. 2023 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी. पीओडी-2/पी/सीआइंआए/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 तथा संवी/एवओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी/2/पी/ सीआईआए/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 (सेवी परिपत्र) तथा इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्रों के साथ इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्रों के मार्फत सेवी (सुचीकरण बाध्यतारं तथा प्रकटन आवश्यकतारं) विगियम, 2015 (सुचीकरण विगियम) के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से रियायत प्रदान किया है। कंपनी अविनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों, सूचीकरण विनियम तथा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए कंपनी की 33वीं एजीएम का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। सदस्यगण सिर्फ वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में उपस्थित हो सकले हैं तथा उपर्यों जपीयली कर करके हैं। एजीएम के पित्र प्रतिक्र पित्र प्रतिक्र कार्यक कर्या के प्रकेल कर्यों के दिन हैं तथा उसमें भागीदारी कर सकते हैं। एजीएम के लिए मानित स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय यानी यूनिट नं. 201 सी-50. मालवीय नगर. नई दिल्ली-110017 है।

ता-०८, गालभव भार, गर्भ परलान् । २००१ हो। कंपनी अविमियम, 2013 (अविनियम), सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सेबी सूचीकरण विनियम) तथा एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की उ3वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविध े जरिए संचालित की जानी है, जिसके लिए एक साधारण स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यक नहीं है। सदस्यागण सिर्फ वीसी/ओएवीएम के ज़रिए एजीएम में उपस्थित एवं भाग ले सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में शामित

होने वाले सदस्यों की गणना की जाएगी। सदस्यगण आगे यह ध्यान दें कि ऊपर उल्लेखित परिपत्रों के अनसार तथा सरकार के हरियाली फैलाने के पहल वे पत्थरपाण आग यह व्यान द ाक ऊपर उल्लाखात पारपत्रा क अनुसार तथा तरकार क हारयाला कलान क पहला प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत 33वीं एजीएम की सूचना तथा वित वर्ष 2023-24 के तिष वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्य को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ईमेल का पता कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के पा पंजीकृत है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ प्रतित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 त कभग आवागवन, 2013 को बारा 100 के तीव भारत कमा (प्रबंधन एवं प्रशासन) (नवन, 2014 के नवन 20 तव सुधीकरण विनियम के विनियम 44 के अनुसार एनएसडीएल द्वारा प्रतद इत्वेदर्गनिक वोटिंग प्रणाली ("मैसी) ई-वोटिंग") द्वारा कंपनी अपने सदस्यों के लिए एजीएम सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने की सुविध प्रदान करेगी तथा इन वोटिंग के जरिए व्यवसायिक पहलुओं का निर्धारण किया जा सकता।

जनान करना प्रचा है। चाहन के जार करनावक करकुंका का निवारन करके कि जान करना का चिक्रा के कि जान के कि कि कि कि क सितोंट ईनोटीन की अवधि पुरुवार, 19 सिताबर, 2024 के पुबंद 9.00 वजे आरम्भ होगी एवं रविवार 22 सितम्बर, 2024 को अपराहन 5.00 बजे समाप्त होगी। कथित तिथि एवं तारीख के उपरांत रिमोट ईनोटिन की अनमति नहीं दी जाएगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार अपना वोट डाल दिए जाने के बाद उन्हें उसमें बदला करने की अनमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के समाप्त होने पर संबंधित सेवा बंद कर दी जाएगी परेप को अनुमार्ग रहा या जाएगा। तिराह इन्याटों को जाव के सामते होने के सामयों सवा बच्च परे या जाएगा। इतेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के छरिए वोट डालने की सुविधा एजीएम के दौरान उपलब्ध रहेगी तथा बीसी/ओएवीएम को सुविधा के जरिए एजीएम में उपस्थित रहने वाले सदस्यों तथा रिमोट ई-वोटिंग के जरिए प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है तथा ऐसा करने के लिए जिन पर पाबंदी नहीं लगी है, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वोट डालने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाल चुके सदस्य एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु वे दोबारा वोट डाल क पत्र तेगा। तमाद इन्यादा क जार, जनम वट जल युक्त तस्वर (जारम र आपस्वर हा सका ह नका ह ने सुव पंचाय पट जल के हकदार सही होंगे। सदस्यों का वोटाधिकार सोमवार, 16 सितम्बर, 2024 ("अंतिम तारीख") को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी गे

उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के समानुपात के आधार पर होगा। कोई भी व्यक्ति अंतिम तारीख को कंपनी क सदस्य हैं वे रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में वोटिंग के जरिए एजीएम सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के योग्य होंगे।

जिला के पांच होगा कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयरों का अधिग्रहण कर कंपनी का सदस्य बनते पूर्व अतिम तारीख को शैयर घाण रखते हैं, वे evoling@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज कर लॉग इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, कोई व्यक्ति अगर रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वे अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं (अगर वे अपना पासवर्ड मूल गए हैं, तो वे www.evoting@nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'फॉरगॉट यूजर डिटेल्स/पासर्वड' का इस्तेमाल कर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अथवा एनएसडीएल से नीचे उल्लेखित टोल फ्री सं. 1800 1020 990 तथ 1800 22 44 30 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के संबंध में किसी भी तरह के प्रश्न रहने पर कृपया www.evoting@nsdl.com व डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनूअल तथा फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेशच (एफएक्यू) देखें अथवा एनएसडीएल की टोल फ्री नं. 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर सम्पर्क करे

. तहाप्रबंधक, टी-34, दसरी मंजिल, ओखला इंडस्टियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 से ईमेल आईडी info@masserv.com, दूरभाष सं: 011-26387281-83 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा कंपनी सचिव के mnogmasser v.com, पुराभ स. २०११-२००२२१ -०० पर समय येर संयत ह जयम येभग साथय थ secretarial@vipulgroup.in पर इंमेल मेज सरको हैं। **एतद्दारा पुनः सूचित किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 तथा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथ

प्रकटीकरण जरूरत) विनियम, 2015 के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुपालन के तहत एजीएम के उद्देश्य हेतु सदस्यों के रजिस्टर एवं कंपनी की अंतरण पुस्तिका सोमवार, 16 सितम्बर, 2024 से सोमवार, 23 सितम्बर, 2024 तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।

सभी सदस्यों से अपने ई-मेल एड्रेस कंपनी के पास पंजीकृत कराने का अनुरोध किया जाता है। हरित पहल के समर्थ राना प्रदेश एजना हुनारा रहुए। जना जनारा नगहुना प्रतान प्राज्य प्रतान एवं जुराव एवं जाता होता सर्वर प्रतिक में में कंपनी आपको वॉर्षिक प्रतिवित तथा अन्य प्राक्षींगेक जानकोरी तथा दरतावेश आपके पंजीकृत ई-मेल पर्ने प्र भेजेगी। ई-मेल एड्रेस का पंजीयन कंपनी एवं मूल्यवान हिस्सेवार के रूप में आपके के साथ बेहतर तरीके से संचार करने में सहायक साबित होगी, तथा संचार पर होने वाले व्यय में भी कटौती होगी तथा सबसे महत्वपूर्ण है कि कागज कराने गोधनेक भावते होगा, पंजा भावते पर हो नेवार्ठ क्यूने गो केंद्रसार होगा पेना भावते गुरुष कुपया अपना व्योरा इस्तेमाल में कटौती से पर्यावरण की सुरक्ष होगी। ईन्मेल एड्रेस के पंजीयन के लिए कृपया अपना व्योरा secretarial@vipulgroup.in अथवा info@masserv.com पर भेजें। जिन सदस्यों के पूस्स मौतिक स्वरूप में शेयर धारण है अथवा जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पता का पंजीयन

नहीं कराया है वे रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डाल सकते हैं अथवा एजीएम की सचना में यथा प्रदत्त प्रारू ात करावा है ना राग्द स्थापन के आर काम गय छात प्रकार के आतं करा के क्या राज्य के अस्य राजान के पूर्वमा ने प्रकार में बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्यगण ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख एजीएम व

सुचना में किया गया है। एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वैबसाइट www.vipulgroup.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, जहां कंपनी के रोयर सुचीबद्ध है यानी बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तिमिटेड अर्थात www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी २०२०

लेमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर निर्धारित समय तक उपलब्ध रहेगी। ऊपर उल्लेखित सूचना कंपनी के सभी संदर्स्यों की जानकारी तथा लाम के लिए जारी किया जा रहा है तथा सम समय पर जारी एमसीए परिपत्रों तथा सेवी परिपत्रों के अनुसार है। कृते विपुल लिमिटेड

स्थान ः गुरुग्राम तारीख ः 13 अगस्त, 2024

हस्ता/

दिनांकः 14 अगस्त 2024 स्थानः पलवल, हरियाणा

सुनील कुमार कंपनी सचिव

नाब्यन से कम्पना आधानयन, 2013 के राना लोगू आवधाना आर तदधान । वरायत नात्र्यन तथा तथा तथा (सूधाय दायित्व और प्रकटीकरण अधारांग) विनियमावली, 2015 के सह प्रतित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक ह अप्रैल, 2020 के जनरल परिपत्र नंबर 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के जनरल परिपत्र नंबर 17/2020 और इस संबंध में आगे जारी किए गये अन्य परिपत्र के साथ जिसमें दिनांक 25 सितम्बर 2023 को जार गरी है से प्रेसन में 10 मार्ग में 2023, जिसे कार्पोरेट मंत्रावल मानलें (एमसी) स्कुलर्स) द्वारा जारी किय गया था, जिसके द्वारा 30 सितंबर 2024 तक एक सामान्य स्थल पर शेयरघारकों की मौतिक उपस्थिति के बिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजअल साधन ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम के आयोजन पार्ख्या धराणात्मा (पाता)/ जन्य जाख्या वियुक्तत तावन (जारंपार्रन) प नाव्यने त रणार्त्म प जायात को अनुमति दी नई है। भारतीय प्रतिमूति और विनिमय बोर्ड ('सेवी) ने अपने परिपत्र संख्य सेवी / एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई. 2020 के अनुसरण मे सेबी द्वारा अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांव राजा बारा जना ने गर्ने राज्या राजा, र्युकों / राजे गर्जा / राजे गर्जा / राजे गर्जा / राजे गर्जा / राजे / राजे र 15 जनवरी, 2021) और परिपत्र संख्या सेवी / एचकों / सीएमकी/ सीएमकी/ सीपाईयार / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी दिनांक 13 मई, 2022, सेबी / एचको / सीआरडी / पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी 2023 और नवीनतम परिपत्र संख्या सेही / एचओ / सीएफडी / सीएफडी—पीओडी—2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 ("संबी परिपत्र") के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के कुछ प्रावधान के अनपालन से कछ छट प्रदान की गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों, सूचीयन विनियमों के सहपठित एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, कंपनी की 36वीं एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो–विजुअल बार जारा परिवास के जुआर, अन्या को क्या रजार पालन के कारों राजालन (पर्वता)/ जाव कार्ला स्वयुक्त साधनों (आएसीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसके लिए स्वरमों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। 36वीं एजीएम के आयोजन के लिए स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा ।

91711 वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें नोटिस, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक क रिपोर्ट, लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरण और वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं केवल कंपनी के जन सदस्यों को इलेक्टॉनिक रूप से ई—मेल दारा भेजे जाएंगे जिनका ई—मेल पत शानल ६, कथल कपना क उन सदस्या का इलपट्रानिक रूप स् =ननल द्वारा नज जारंग, ाजनका इन्छ कंपनी के रेजिस्ट्रार और शेयार ट्रांसफर एंग्रेंट, कंपनी के साथ या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभानीये ('डिपॉजिटरी') के साथ एमसीए और सेवी परिपत्रों के अनुसार पंजीकृत है। कंपनी अपने सदस्यों के राजिया कि गांव राजि राजि के राजि राजि के राजिया के जुआते को राजियों के स्वात के सुविधा के साख्या के इसेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('सिगेट ई–वोटिंग') का उपयोग करके, वीसी/ ओवीएएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में माग तेने और एजीएम के दौरान, ई–वोटिंग करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') के माध्यम से सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश और एजीएम के दौरान सिगेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में माग लेने या ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के एआएम के दारोंने रिमोट इतवट्रानिक वाटिंग में भाग लेने या इ-वाटिंग सिस्टम के माध्यम से वार्ट डॉलन व तरीके एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग तेने वाते सदस्यों के कंपनी अविनियम, 2013 की घारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम क क्षमा आवान्यन, 2013 का वार्रा03 के प्रतिशामित के उस्वय तामा आएगा आपका राग, २०१७, २०१७ के नोटिस और अत्य प्रार्सगिक दस्तावेक केपनी की वेबसाइट www.insilcoindia.com और प्रार्स्झ लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

नाराज्य गाया से सिंह कि सिंह कि सिंह कि से सिंह के सिंह कि सिंह नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट वोटिंगे का तरीका 36वीं एजीएम के नोटिस में दिया गया है।

ार्थ जरवार होना होता है। वे सदस्य जो मीतिक रूप में शेयर धारक हैं, जिनके ईसेन पर केक्पनी के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे अपना इंमेल पता पंजीकृत कराने के लिए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी भेजकर अपना ईमेल पता पंजीकृत कर सकते हैं, जिसमें आपका नाम, फोलियो नंबर, पूरा पता, पंजीकृत किया जाने वाला ईमेल पता, साथ ही पैन कार्ड की रकेन की गई रख-सत्यापित कॉपी और सदस्य के पंजीकृत किया जाने वाला ईमेल पता, साथ ही पैन कार्ड (जैसे झाइविंग ताइसेंस, पासपोर्ट, वैंक स्टेटमेंट, आघार कार्ड) शानिल हो, उसे कंपनी के ईमेल पता Insilco2@gmail.com पर ईमेल किया जा सकता है। डीमेंट कॉर्म में श्रेयर धारक सतस्य अपने InsinCoze@ginamic.com पर इनले गयेथा आ त्तर्पत्रा हा आने के कि यहां सार वारण त्तरप अन डियोजिटरी प्रतिमागी के साथ अन्म इंसेन प्ता आपडेट कर सकते हैं। यदि कंपनी / आरटीए के साथ पहले रें पंजीकृत ईमेल आईडी में कोई परिवर्तन होता है, तब सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे भौतिक रूप में रखे गए शेररों के संबंध में कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail.com पर बाध हलेन्द्रीलि रूप में रखे गए शेररों के संबंध में किपॉजिटरी प्रतिभागियों को तुरंत इस परिवर्तन के बारे में सूचित कर दें।

कंपनी के वे सदस्य जो भौतिक रूप में या डीमैंट रूप में शेयर धारक हैं. वे कट–ऑफ तिथि यानी बधवार भगना के प्रतारपत्र जा माधार खेने में वा जनार खेन रायर धारक है. ये क्रिंटिजाक सिलव प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त 4 **सितंबर 2024 को रिमोट डे-नोटिंग के माध्यम से दोट देने या तीसी, अंधरिपिस के माध्यम से देवक में** शामिल होने और एजीएम में वोट डालने के हकदार होंगे। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शुक्रवार, 06 सितंबर** 2024 को प्रात: 09:00 बजे (मारतीय समयानुसार) से शुरू हो जाएगी और मंगलवार, 10 सितंबर 2024 को सांय: 05:00 बजे (मारतीय समयानुसार) समाप्त हो जाएगी। इसके बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निक्रिय कर दिया जाएगा। एक बार जब सदस्य द्वारा रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्ताव पर वोट डाल देता है, उसके बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग वे माध्यम से अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोवारा वोट डालने क अधिकार नहीं होगा।

चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, इसलिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की कोई आवश्यकत ूमें स्वतिए, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा एजीएम के लिए जपलब्ध नहीं होगी। हालांकि निकाय कॉर्पोरेट वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ('ई–वोटिंग') वे किया जाता है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति अपने पंजीकत ईमेल के माध्यम से जांचकर्ता क ावया जाता है । ये व बाल के प्रत्रांत का अनागता राज्य आते जनन चलावृत्य इनले के नाव्यन से जावयनरा क Officenns@mail.com पर भेज दें, जिसकी एक प्रति ट्रानएसडीएल की evoting@msdl.co.in पर बिहित की गई हो, ताकि उनके प्रतिनिधि को ई–वोटिंग के माध्यम से बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से वोट डालने के लिए अधिकत किया जा सके।

मेसर्स नित्यानंद सिंह एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़ को ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्श तरीके से जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

प्रापेक राजाव करने करते हाए जावकरों के एक ना नायुछा किया नेवा हो जो सदस्य एकिएम के दौरान अपने विवार ख्याक करना बाहते हैं यो कोई प्रश्न पूछना बाहते हैं, वे एजीएम शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी राग पे भेगे पे भेग के बच नेदर जेना नजीशत शांत ने पे प्रजना गए, जना जावज जार प्राप्य जावज नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर बातों हुए कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail.com पर अपन अनुरोध भेजकर खुद को पंजीकृत करवा सकते हैं।

ोजन सदस्यों को कोई प्रस्न पूछना है या कोई जानकारी चाहिए, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर∕ फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के ईमेल पते insilco2@gmail.com पर ईमेल लिखें / भेज दें ।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी शेयरधारकों की जानकारी और लाभ के लिए एमसीए और सेबी के लागू परिपत्र के अनपालन में जारी की जा रही है । कते इंसिल्को लिमिटेड

(स्वैच्छिक परिसमापन के तहत 25.06.2021 से प्रभावी) हस्ता / गीतिका वार्ष्णेय

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

ख़बारें जो बढ़ाए		यह आवासीय कॉलोनी इरोस गार्डन कॉलोनी, सूरज कुंड रोड, फरीदाबाद में स्थित है, जिसका निर्माण 139.35 वर्ग मीटर (166.66 प्लॉट पर किया गया है, जो कि ग्राम लक्कड़पुर, फरीदाबाद, हरियाणा की राजस्व संपदा में स्थित है। सीमाएं:- उत्तर में: प्लॉट संज् द्वारा; पूर्व में: प्लॉट संख्या 46 द्वारा; पश्चिम में: प्लॉट संख्या 48 द्वारा; दक्षिण में: सड़क द्वारा।						
आपकी तरक्की	2.	आवेदक:- श्री रामप्रसाद मीणा	संपत्ति आवासीय संपत्ति /			सांकेतिक कब्जा		
की रफ़्तार		गारंटर : करमवीर	आवास इकाई प्लॉट नंबर 50		भार			
And State of		ऋण खाताः 310900007543	का समस्त भाग, ब्लॉक-V					
			पर निर्मित प्रथम तल पर स्पेस					
eachbs to 57575 or			मीटर) है, एरोस गार्डन कॉले					
order@bsmail.in		हरियाणा में स्थित है। सीमाः- उत्तर पूर्व मं	ोः 30–0'' चौड़ी सड़क; दक्षिण	पूर्व में: प्लॉट नंबर 51/ V ; उ	उत्तर पश्चिम में: प्लॉट नं	बर 51/ V ; दक्षिण		
		पश्चिम मेंः अन्य लोगों का घर।						
Business Standard								
		उपरोक्त के अनुसार बकाय	ग राशि तथा भावी ब्याज	एवं मांग सूचना की वि	तेथि से अन्य प्रभार	l .		
Insight Out	तिथि	ं : 14.08.2024, स्थान : फरीदाबाद	t 3	अधिकृत प्राधिकारी, एल	आईसी हाउसिंग फा	इनेंस लिमिटेड		



SMS r

emai

कंपीटेंट ऑटोमोबाइल्स कंपनी लिमिटेड

पंजीकत कार्यालयः कंपीटेंट हाउस. एफ-14. कनॉट प्लेस. नई दिल्ली-110001 सीआईएन: L34102DL1985PLC020668 फोन: 011-45700000 ईमेलः cs@competent-maruti.com, वेबः www.competent-maruti.com

30.06.2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का अंश

		स्टैण्डएलोन (रु. लाख में)				समेकित (रु. लाख में)		
क्र.			समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	समाप	त तिमाही	समाप्त वर्ष
सं.	विवरण	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	31.03.2024	31.03.2024
80		अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1.	प्रचालनों से आय	47348.59	49878.90	47799.78	211727.68	47348.59	49878.90	211727.68
2.	अन्य आय	178.64	207.33	176.52	721.33	178.64	207.33	721.33
3.	प्रचालनों से कुल आय	47527.23	50086.23	47976.30	212449.01	47527.23	50086.23	212449.01
4.	अवधि हेतु निवल लाभ⁄हानि (कर तथा अपवादित मदों से पूर्व)	745.97	1486.96	784.07	3904.91	745.97	1486.96	3904.91
5.	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ∕हानि (अपवादित मदों से पूर्व)	575.46	1007.69	576.22	2802.82	575.46	1007.69	2802.82
6.	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ⁄हानि (अपवादित मदों के पश्चात)	575.46	961.13	576.22	2756.21	575.46	961.13	2756.21
7.	कुल अन्य व्यापक आय	2.61	285.20	00.00	285.20	2.61	285.20	285.20
8.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	578.07	1246.33	576.22	3041.46	578.07	1246.33	3041.46
9.	इक्विटी शेयर पूंजी	614.60	614.60	614.60	614.60	614.60	614.60	614.60
10.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) बेसिक	9.38	16.40	9.38	45.60	9.38	16.40	45.60
	डाइल्यूटेड	9.38	16.40	9.38	45.60	9.38	16.40	45.60
	टिप्पणियां :							

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 14.08.2024

उपरोक्त सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तत 1. प्रारूप का एक अंश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.competent-maruti.com पर उपलब्ध है। 2.

उपरोक्त परिणामों की समीक्षा और अनुशसा ऑडिट समिति द्वारा की गई और 14.08.2024 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई। 3.

प्रस्तत सभी अवधियों के वित्तीय परिणॉम कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए हैं।

कंपनी ने 12 मार्च, 2024 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, कंपीटेंट कश्मीर ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया है, इसलिए, समेकित वित्तीय 4. परिणामों के लिए, तिमाहियों के लिए पूर्ण तुलनात्मक विश्लेषण लागू नहीं है।

कंपीटेंट	ऑटोमोबाइल्स	कंपनी	लिमिटेड	के लिए
				हस्ता./-
			राज	न चोपड़ा
	3	ाध्यक्ष ा	खं प्रबंध	